

August 13, 2019

BSE Limited Corporate Relationship Department, 1st Floor, New Trading Ring, Rotunda Building, P.J. Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai-400 001 National Stock Exchange of India Ltd Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G-Block Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051

Reference: Scrip Code - NSE-SHALPAINTS, BSE-509874 Subject: Compliance under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/Ma'am,

Please find enclosed the copy of publications of financial results of the Company as on 13 August 2019 for the quarter ended 30 June 2019 in the following newspapers:

- i. All India Edition of Financial Express and
- ii. Delhi Edition of Jansatta.

This is for your information and records.

Thanking you,

For Shalimar Paints Limited

(Gautam)

Company Secretary



WWW.FINANCIALEXPRESS.COM



SHALIMAR WIRES INDUSTRIES LIMITED

CIN: L74140WB1996PLC081521 Registered Office: 25, Ganesh Chandra Avenue, Kolkata-700 013 Tel: 91-33-22349308/09/10. Fax: 91-33-2211 6880

E mail Id:kejriwal@shalimarwires.com, website: www.shalimarwires.com STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE FIRST QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2019

SL No.	Particulars	3 months ended (30/06/2019) Unaudited	3 months ended (30/06/2018) Unaudited	Year ended (31/03/2019) Audited
1	Total Income from Operations	3,057.64	2,793.20	11,534.55
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	54.56	27.16	(512.99)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	54.56	27.16	(512.99)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	54.56	27.16	(512.99)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	54.56	27.16	(534.23)
6	Equity Share Capital	855.10	855.10	855.10
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		108:1	3,744.07
8	Earnings Per Share (of Rs. 2/- each)			
1	Basic:	0.13	0.06	(1.20)
1	Diluted:	0.13	0.06	(1.20)

 a) The above is an extract of the detailed format of unaudited Financial Results of the Company for the first Quarter ended 30th June. 2019 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results of the Company are available on the websites of the Company and Stock Exchange(s).

Kolkata 12th August, 2019 For Shalimar Wires Industries Limited Sunil Khaitan Chairman & Managing Director DIN No. 00385961

(Rs. In Lacs)





Haq, ek behtar zindagi ka.

NOTICE - CUM - ADDENDUM

Official Points of Acceptance (OPA) -Change of Address of Bellary (Karnataka) UFC

The address of the following UFC is changed as under with effect from August 13, 2019:

UFC Location	Old Address	New Address	Region	Zone	
Bellary	UTI Financial Centre, Kakateeya Residency, Kappagal Road, Gandhinagar, Bellary – 583 103, Karnataka Tel. No. (08392) 255634 / 635	UTI Financial Centre, Ground Floor, Sri Basava Square, 2nd Cross Gandhinagar, Bellary – 583 103, Karnataka Tel. No. (08392) 255634 / 635	Karnataka	South	

This addendum No. 29/2019-20 is an integral part of the Statement of Additional Information (SAI) and Scheme Information Document (SID)/Key Information Memorandum (KIM) of the schemes of UTI Mutual Fund and should be read in conjunction with SAI & SID/KIM.

For UTI Asset Management Company Limited

Authorised Signatory

In case you require any further information, the nearest UTI Financial Centre / Official Points of

Acceptance may please be contacted.

Mumbai August 12, 2019

Toll Free No.: 1800 266 1230

Website: www.utimf.com

REGISTERED OFFICE: UTI Tower, 'Gn' Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051. Phone: 022 - 66786666. UTI Asset Management Company Ltd. (Investment Manager for UTI Mutual Fund)

E-mail: invest@uti.co.in, (CIN-U65991MH2002PLC137867). For more information, please contact the nearest UTI Financial Centre or your AMFI/NISM certified UTI Mutual Fund Independent Financial Advisor, for a copy of Statement of Additional Information, Scheme Information Document and Key Information Memorandum cum Application Form:

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.



SHALIMAR PAINTS LIMITED

CIN No: L24222HR1902PLC065611

Regd. Office: Stainless Centre, 4th Floor, Plot No. 50, Sector 32 Gurugram -122001; Haryana Website: www.shalimarpaints.com, Email: askus@shalimarpaints.com, Ph No.: +91 124 4616600

REGULATION 47 (1)(b) OF SEBI (LODR) REGULATIONS, 2015 EXTRACTS OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2019 (₹ in Crore except for Shares and EPS

	Consolidated Financial R	esults			
		Fort	nded	Year Ended	
SI. No.	Particulars	30.06.2019	31.03.2019	30.06.2018	31.03.2019
NO.		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total Income from Operations	85.06	89.51	51.45	287.62
2	EBITDA#	0.26	(34.08)	(12.02)	(59.68)
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or		65 5	100 100	17h 55
	Extraordinary items)	(6.16)	(42.79)	(20.30)	(93.50)
4	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or	01548945	vetterascarts.	Mesonsd	985-1850-35
	Extraordinary items)	(6.16)	(54.34)	(20.30)	(109.18)
5	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or	3.500,000	538/9990000000	0.000000	
	Extraordinary items)	(5.35)	(43.36)	(14.76)	(81.78)
6	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profits /	1000000	- control -	18.100.101.00	56.000000000
	(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income				
	(after tax)	(5.35)	(43.84)	(14.79)	(82.35)
7	Paid up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 2/- each)	10.86	10.73	4.50	10.73
8 9	Other Equity				294.54
9	Earnings Per Share (Face Value of Rs. 2/- each) (for continuing and				
	discontinued operations)-				
	Basic	(0.99)	(8.08)	(6.89)	(15.24)
	Diluted*	(0.99)	(8.08)	(6.89)	(15.24)

Ctandalana Elnanalal Informatio

	Standalone	Financial Information			
		Fort	the Quarter Er	ided	Year Ended
SI. No.	Particulars	30.06.2019	31.03.2019	30.06.2018	31.03.2019
NO.		(Unudited)	(Audited)	(Unudited)	(Audited)
1	Total Income from Operations	85.06	89.51	51.45	287.62
2	EBITDA#	0.33	(34.00)	(11.95)	(59.40)
3	Net Profit for the period before tax	(6.08)	(54.25)	(20.23)	(108.89)
4	Net Profit for the period after tax	(5.30)	(43.30)	(14.72)	(81.57)

*Anti-dilutive #EBITDA= Earning before Interest, Tax and Depreciation & Amortization

 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results for the guarter ended June 30, 2019, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results for the quarter ended June 30, 2019, is available on the website of Stock Exchanges at (www.bseindia.com/www.nseindia.com) as well as on the Company's Website at (www.shalimarpaints.com).

On 4th Jan 2019, The parent company has allotted 3,11,43,042 equity shares of face value Rs. 2/- each at the price of Rs. 64.50/- per share (including premium of Rs. 62.50/- per shares) aggregating to Rs. 200.87 Crore to the eligible equity shareholders on right basis in the ratio of 3 equity shares for every 2 equity shares held.

Proceeds from the right issue have been utilised in the following manner.

Particulars	Proposed to be utilised during financial year 2018-19	Utilised during the financial year 2018-19	Utilised during quarter 1 of financial year 2019-20	To be utilised during financial year 2019-20
Project of reinstatement of paint manufacturing plant at Nashik	45.68	20.35	14.22	11.11
Setting up of Regional Distribution Centre (RDC) at Nashik	3.40	-		3.40
Long Term Working Capital Requirements	117.38	87.09	32.27	-1.98
General Corporate purposes	34.15	11.37	13.66	9.13
Expenses for Rights Issue	0.26	0.26		-
Total	200.87	119.07	60.15	21.65

 On 8th April 2019, The parent company has allotted 6,58,872 equity shares of face value Rs. 2/- each at the price of Rs. 86.56/- per share (including premium of Rs. 84.56/- per shares) aggregating to Rs. 5.70 Crore to the Hind Strategic Investments by converting its ECB loan of US\$ 0.08 Cr pursuant to members approval through Postal ballet dated 16.03.2019.

These Consolidated Unaudited Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and were approved by the Board of Directors in their meeting held on August 12, 2019. Limited Review of these results are in accordance with Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 has been carried out by the Statutory Auditors. For and on behalf of the Board

Ashok Kumar Gupta

DIN: 01722395

Vigilant Traders & Financiers Limited

CIN: L65993WB1983PLC035626REGISTERED OFFICE: 7C KIRAN SHANKAR ROY ROAD, KOLKATA - 700001 PHONE: +91-33-2248 4421

E-MAIL: NANGALIAHYDROCARBON@GMAIL.COM WEBSITE: WWW.VIGILANTTRADERS.CO.IN Extract of Statement of Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2019 (Rs.in Lacs)

SI.	Particulars	Quarter ended 30-June-2019 (Unaudited)	Quarter ended 30-June-2018 (Unaudited)	Year ended 31-Mar-2019 (Audited)
1	Total income from operations (net)	2,61,582	2,985	70,334
2	Net Profit/ (Loss) for the quarter(before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	2,13,291	(1,383)	(5,76,304)
3	Net Profit/(Loss) for the quarter before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	2,13,291	(1,383)	(5,76,304)
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	2,13,291	(1,383)	(5,57,605)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2,13,291	(1,383)	(5,57,605)
6	Equity Share Capital	2,33,200	2,33,200	2,33,200
7	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)			
	Basic:	0.91	(0.01)	(2.39)
	Diluted :	0.91	(0.01)	(2.39)

the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange and the listed entity www.vigilanttraders.co.in

For and on behalf of the Board of Directors (Uttam Kumar Nangalia) Place: Kolkata (DIN -00871864) Date: 12.08.2019 Director

RCC CEMENTS LIMITED

Regd. Off.: 702, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi- 110001 Phone: 011-43571044; Fax: 011-43571047, Website: www.rocoements.com, Email: rocoementslimited@gmail.com EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2019

SI. No.	Particulars	ended on 30.06.2019 (Unaudited)	ended on 30.06.2018 (Unaudited)	year ended 31.03.2019 (Audited)
1	Total income from operations (net)	0.00	0.00	0
3	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, exceptional and/ or Extraordinary items) Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after	(2.42)	(2.68)	(11.15)
W:	exceptional and/ or Extraordinary items)	(2.42)	(2.68)	(11.15)
4	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after exceptional and/ or Extraordinary items)	(2.42)	(2.68)	(11.16)
5	Total comprehensive income for the period (Comprising Profit' (loss) for the period (after tax) and	1000135000	000000	CONTROL CONTROL
	other Comprehensive income (after tax))	(2.42)	(2.68)	(11.16)
6	Equity Share Capital	560.20	560.20	560.2
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	- 10	105	(171.84)
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operation)			
	Basic:	(0.04)	(0.05)	(0.2)
	Diluted:	(0.04)	(0.05)	(0.2)

NOTE: The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2019 filed with the BSE under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirments) Regulations, 2015. The full format of the aforesaid Quarterly Financial Results is available on the BSE's website, i.e., www.bseindia.com and on the Company's website www.rcccements.com For and on behalf of the Board of Directors of

Place: New Delhi Date: 12th August, 2019 (Sunil Kumar) Managing Director DIN: 00175301

JSC INSTITUTE ORGENERGOSTROY, RUSSIAN FERDERATION

invites

Quotations from MINERS, SUPPLIERS & TRADERS for STONE BOULDERS for Rooppur Nuclear Power Plant, Bangladesh.

The same should include transportation cost from location of boulders to Bangladesh Hilli, Bangladesh Benapole.

700000 tonnes of Black Stone with capacity of 1000 tonnes supply per day. Size of Stone: 200 mm to 500 mm

(Maximum 800mm) PLEASE Quote with break up of rates and

applicable taxes. Send your Quotations to : rks.org@yahoo.com,

yasnogorodskiyai@ioes.ru Last date for applications: 20/08/2019

Contact - 9830058600 R K Singh (Country Representative) INDIA website: ioes.ru



SAL AUTOMOTIVE LIMITED (formerly known as Swaraj Automotives Limited)

CIN: L45202PB1974PLC003516 Regd. Office: C-127, IV Floor, Satguru Infotech, Phase VIII, Industrial Area.

SAS Nagar (Mohali), Punjab - 160 071, Ph.: 0172-4650377, Fax: 0172-4650377 E-mail: kaushik.gagan@swarajautomotive.com Website: www.swarajautomotive.com

NOTICE OF AGM AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 44th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Friday, 13th September, 2019 at 3.00 p.m. at Hotel Cama, SCF-13-18, Sector-53, Phase-3A, S.A.S Nagar (Mohali), Punjab-160059 to transact the business as set out in the Notice being separately sent to the Members (i) through e-mail to Members whose e-mail IDs are registered with the Company/Depositories; and (ii) through physical copy to the Members whose e-mail IDs are not registered with the Company/Depositories, through prescribed mode. The Annual Report comprising inter alia Notice of AGM, Audited Financial Statements, Directors' Report and Auditors' Report thereon for financial year ended 31" March, 2019 also being sent to the Members. The Annual Report including AGM Notice is also available on the Company's website www.swarajautomotive.com

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014,as amended, and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, the Company has provided electronic voting facility (remote e-voting) through National Securities Depository Limited (NSDL) for transacting all the items of business set forth in the AGM Notice. Members of the Company, holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date, the 6" September, 2019 may cast their vote electronically. The remote e-voting period will commence on 10th September, 2019 at 9.00 a.m. and end on 12th September, 2019 at 5.00 p.m. No remote e-voting shall be allowed beyond the said date and time. The Company will also make available the facility for voting through ballot at the venue of AGM which will be applicable for voting by shareholders attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting. Any person who become Member after the dispatch of the Notice of the 44" AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. 6" September, 2019 may obtain the User ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or Registrar and Share Transfer Agent of the Company at helpdeskdelhi@mcsregistrars.com. The procedure for obtaining the User ID and password is also provided in the Notice of the 44" AGM which is available on the Company's website at www.swarajautomotive.com and NSDL website at www.evoting.nsdl.com. Members who have cast their vote through remote e-voting prior to AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to vote again at the AGM.

Members may go through the instructions mentioned in Note no. 15 of the AGM Notice related to voting through electronic means (remote e-voting) or visit NSDL's website www.evoting.nsdl.com and in case of queries, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQ) and/or e-Voting User Manual available at the NSDL's aforesaid website or contact Ms. Pallavi Mhatre, Assistant Manager, NSDL at the designated e-mail IDs-evoting@nsdl.co.in or pallavid@nsdl.co.in or telephone nos. i.e. 022-24994545 or 1800-222-900(toll-free).

For SAL AUTOMOTIVE LTD. Place: S.A.S. Nagar (Mohali) (GAGAN KAUSHIK) Date: 10th August, 2019 Company Secretary

AAYUSH FOOD AND HERBS LIMITED

CIN: - L01122DL1984PLC018307

Regd. Off.- W-321, Ground Floor, Chirag Delhi, New Delhi- 110017; Ph.- 011-41009092 Website: www.aayushfoods.com; E-mail: aayushfoodherbs@gmail.com

Statement of Standalone Un-audited Financial Results for the quarter ended June 30, 2019 (Rs. In Lakhs, unless otherwise stated)

SI. No.	Particulars	Quarter ended 30.06.2019	Preceding 3 months ended 31.03.2019	Correspond- ing 3 months ended in the previous year 30.06.2018	Year ended 31.03.2019
		Un-udited	Audited	Un-audited	Audited
1	Total Income from Operations (net)	3,651.39	4,817.43	2,794.46	13,306.77
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	19.33	6.23	27.28	82.17
3	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	19.33	6.23	27.28	82.17
4	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	14.30	-8.81	27.28	60.34
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)] [Refer Note 3 below]				
6	Equity Share Capital	324.50	324.50	324.50	324.50
7	Reserves (Excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year)		(41)		251.59
8	Earnings/(Loss) Per Share(not annualised, in Rs.) for continuing and discontinued operations - Basic - Diluted	0.44 0.44	-0.27 -0.27	0.84 0.84	1.86 1.86

The above is an extract of the detailed format of Financial Results fro the guarter ended June 30, 2019 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the quarter ended June 30, 2019 are available on the website of the BSE Limited (www.bseindia.com) and Metropolitan Stock Exchange of India Limited (www.msei.in) where the company's shares are listed and shall also be available on the website of the Company (www.aayushfoods.com).

The above Un-audited Standalone financial results of the Company for the guarter ended June 30, 2019 have been reviewed by Audit Committee of the Board and thereafter approved by the Board of Directors at its meeting held on August 12, 2019.

The above Unaudited Financial Results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting standards) Rules, 2015 (IND AS) Prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder and other Recognised Accounting practices and policies to the extent applicable.

By order of the Board For Aayush Food and Herbs Ltd.

Pallavi Mittal

Place: New Delhi Date: 12th August, 2019

Managing Director DIN 07704583

MIDEAST INDIA LTD.

CIN: L63090DL1977PLC008684 REGD.OFFICE: GROUND FLOOR, 8/15, MEHRAM NAGAR, NEW DELHI, 110037

Tel.: 011-25675344, E-mail: nsparameswaran@mescosteel.com

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2019 Year Ended | Quarter Ended **Particulars** 30.06.2019 31.03.2019 30.06.2018 UNAUDITED AUDITED UNAUDITED Income from Operations (Net) 1,310,313.22 3,687,112.00 1,415,249.00 181,042.86 (771, 138.64)371,818.00 Net Profit/(Loss) from Ordinary Activities after Tax Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Extraordinary Items) 181,042.86 (771, 138.64)371,818.00 Equity Share Capital (Face value Rs. 10/- per Equity Share) 502,053,980.00 502,053,980.00 502,053,980.00 Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in (417,605,056)(417,605,056) (417,987,982)balance sheet of previous year) Earning per share (before and after extraordinary items) (Rs.10- each) Basic (Rs.) 0.00 -0.02Diluted (Rs.) 0.00 -0.02 0.01

The above Results, have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective Board Meeting held on 12.08.2019

The Statutory Auditors of the Company have carried out Limited Review of the above Results. Figures for the previous period have been re-classified, re-grouped/ re-arranged wherever necessary.

There were no manufacturing activities in the company during the period under consideration The Company has adopted Indian Accounting Standards ("Ind AS") from April 1, 2017 and accordingly these financial results

have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in the Ind AS 34 Interim Financia Reporting prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules issued thereunder. For MIDEAST (INDIA) LIMITED

Jitendra Kumar Singh Director

Place: New Delh Date: 12.08.2019

DIN: 00090649

CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES LIMITED

Registered Office: Century Bhavan, 2nd Floor, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400 030. Phone: +91-022-24957000 • Fax: +91-22-24309491, +91-22-24361980 www.centurytextind.com . Email: ctil.ho@birlacentury.com CIN: L17120MH1897PLC000163

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2019

(₹. in Crores)

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended June 30, 2019	Corresponding 3 months ended in the previous year June 30, 2018	Year Ended March 31, 2019
		Unaudited	Unaudited	Audited
1.	Total Income	881.08	983.07	4040.20
2.	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and /or Extraordinary items) from continuing operations	111.10	184.11	758.90
3.	Net Profit for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) from continuing operations	67.10	120.79	494.60
4.	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and /or Extraordinary items) from discontinued operations	174.52	64.55	266.77
5.	Net Profit for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) from discontinued operations	113.52	41.87	174.07
6.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive income (after tax)]	164.80	119.36	632.78
7.	Paid-up equity share capital (Face Value of Rs.10/- each)	111.69	111.69	111.69
8.	Reserves as shown in Audited Balance Sheet			3181.46
9.	Earning Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing			
	operations) - Basic	6.01	10.81	44.28
	- Diluted	6.01	10.81	44.28
10.	Earning Per Share (of Rs.10/- each) (for discontinued			
	operations) - Basic	10.16	3.75	15.59
	- Diluted	10.16	3.75	15.59

Place: Mumbai

Date: 12.08.2019

 The above results have been reviewed and recommended for adoption by the Audit Committee to the Board of Directors and have been approved by the Board at its meeting held on 12.08.2019.

o transfer all lands and the second state of t

Particulars	Quart	Year Ended	
	30.06.2019 Unaudited	30.06.2018 Unaudited	31.03.2019 Audited
Total Income	881.11	983.07	4,040.09
Net Profit before tax from continuing operations	123.94	184.11	771.30
Net Profit after tax from continuing operations	79.94	120.79	507.00
Net Profit before tax from discontinued operations	174.52	64.55	266.77
Net Profit after tax from discontinued operations	113.52	41.87	174.07

The above is an extract of the detailed format of Unaudited financial results filed with the stock exchanges under Regulations 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited financial results are available on the stock exchange websites.(www.bseindia.com and www.nseindia.com) and also on the Company's website viz. www.centurytextind.com.

> For Century Textiles and Industries Limited R K Dalmia (Whole-time Director)

By Order of the Board





Place: Gurugram

Date: August 12, 2019





ADVIK LABORATORIES LIMITED (ALEXALE)

CIN: L74899HR1994PLC038300 Regd. Off.: 138. Roz Ka Meo Industrial Area. Sohna, Distt. Mewat. Harvana- 122103. Tel No.: 0124-2362471, 011-42424884, Fax no.: 011-43571047, Website: www.advikindia.com, Email: mail@advikindia.com EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS

FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2019 (Rs. in Lacs) Quarter Year ended ended ended **Particulars** 30.06.2019 30.06.2018 31.03.2019 (Un-audited) (Un-audited) (Audited) 84.51 Total income from operations 0.64 0.00 Net Profit / (Loss)for the period/before Tax. Exceptional (33.13) (129.29) and/or Extraordinary items) (29.79)Net Profit / (Loss)for the period before Tax(after Exceptional and/or Extraordinary items) (29.79)(33.13) (129.29)Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) (27.52)(31.79)(124.60)Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other (31.36)Comprehensive Income (after tax)] (123.28 (27.19)Equity Share Capital 1,911.14 1,911.14 1,911.14 Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year) (958.42)Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic (0.14)(0.17)(0.65)(0.17) (0.14)(0.65)Diluted: Notes: The above is an extract of the detailed format of Un-audited. Financial Results for the Quarter ended

June 30, 2019 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirments) Regulations, 2015. The full format of the aforesaid Quarterly Financial Results is available on the Stock Exchanges websites, viz., www.bseindia.com, www.aselindia.co.in and on the Company's website

Place: New Delhi

Date: 12th August, 2019

फॉर्म सं0. आईएनसी-26

किंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30

के अनुसार

कंपनी के पंजीकत कार्यालय को 'दिल्ली की

रा.रा.क्षे" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में

स्थानान्तरित करने हेत् विज्ञापन

केन्द्र सरकार के समक्ष

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) एवं कंपनी (निगमन) नियम, 2014

के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (ए)

के मामले में

लोटस स्टेम फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड (CIN:

U01122DL2011PTC217372) जिसका पंजीकृत

कार्यालयः एस-92, तीसरा प्लोर, पंचशील पार्क

तदद्वारा सामान्य जनता को सूचित किया जात

है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के

तहत आवेदक कंपनी अपने पंजीकत कार्यालय को

"दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र" से "उत्तर

प्रदेश राज्य" मे स्थानान्तरित करने और इसे सक्षम

बनाने के लिए 12 अगस्त, 2019 को आयोजित

असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव

के सम्बन्ध में कंपनी की संस्था बहि नियमावली में

परिवर्तन की पृष्टि लेने के लिए आवेदक कंपनी

द्वारा केन्द्र सरकार के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के पंजीकृत

पंजीकृत कार्यालय पर भेजी जानी चाहिए।

लोटस स्टेम फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड: एस-92,

कृते लोटस स्टेम फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड

हस्ता /-

निदेशक

कृष्णा कुमार वाधवा

DIN: 00170731

तीसरा पलोर, पंचशील पार्क, नई दिल्ली 110017

आवेदक / याचिकाकर्ता

नई दिल्ली 110017

करने जा रही है।

पंजीकृत कार्यालयः

तिथिः 12.08.2019

स्थानः नई दिल्ली

Advik Laboratories Limited Peeyush Kumar Aggarwal Chairman

For and on behalf of Board Directors of

क्षेत्रिय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, के समक्ष कम्पनी मामलो का मंत्रालय. बी–2 बिंग, द्वितीय तल. पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली — 110003 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (क) के मामले में

गोल्डसक्वेयर सेलस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड (CIN: U51909DL2009PTC194623) जिसका पंजीकृत कार्यालय : एच नं. 8–बी / 1 प्लॉट नं. 1ए. ग्राचंड फ्लोर डीएलएफ इंडरिटयल एरिया, मोती नगर विल्ली - 110015 स्थित है, के

मामले में

आम जनता को यह सचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समझ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल करने का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "तेलेगाना राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए तारीख गुरुवार 19 जुलाई 2019 को आयोजित असाधारण ऑम सभा में पॉरित संकल्प के सदंर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पृष्टि की मांग की गई है। कंपनी के पंजीकत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण

से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक आपत्ति प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में आपत्ति दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2 बिंग, द्वितीय तल, पर्यावरण मवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली – 110003 पते पर पंजीकत डाक दवारा मेज सकता है या सुपुर्द कर सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कंपनी की उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी

एच नं 8–बी / 1, प्लॉट नं 1ए, ग्राउंड फ्लोर डीएलएफ इंडस्ट्रियल एरिया, मोती नगर दिल्ली - 110015 आवेदक की ओर से और उसके लिए कृत्ते गोल्ड्सक्वेयर सेलस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड हस्ता / -तिथि : 13.08.2019 कमल बहल स्थान : दिल्ली (निर्देशक)

डीआईएन : 00587854

149.15

146.98

MARKTESH TRADING LIMITED REGD. OFFICE: 612, DEVIKA TOWER, 6, NEHRU PLACE, NEW DELHI-110019 CIN: L51909DL2005PLC135119 E-mail: shriharshraizada@gmail.com, Tel/Fax: +91-11-26219944 Statement of Unaudited Financial Results for the 1st. Qtr. ended 30th. June, 2019

DIN: 00090423

		Quarter ende	d `	Year Ende
			-	
PARTICULARS	(Unaudited)		(30/06/2018) (Unaudited)	
I. Revenue from Operations	18.66	16.04	8.50	40.7
II. Other Income	1.48	6.49	0.33	7.8
III. Total Revenue (I+II)	20.14	22.53	8.83	48.6
IV. Expenses				
(a) Cost of Materials consumed	0	0	0	
(b) Purchase of stock-in-trade	19.15	8.60	7.49	26.
(c) Changes in inventories of finished goods, work in		0.00	'	
progress and stock-in-trade	(0.83)	19.19	(0.70)	18.4
(d) Employee benefits expense	0.6	0.60	0.51	2.
(e) Finance cost	0.0	0.00	0.01	
(f) Depriciation and amortisation expense	0.06	0.05	0.05	0.
(g) Other expenses	0.91	1.48	0.99	3.
Total Expenses	19.89	29.92	8.34	50.
V. Profit/(Loss) before exceptional and extraordinary	10.00	20.02	0.01	
items and tax (III-IV)	0.25	(7.39)	0.49	(2.0
VI. Exceptional items	0.20	(7.00)	0.10	(2.0
VII. Profit/(Loss) before extraordinary items and	٠	U	"	
tax (V-VI)	0.25	(7.39)	0.49	(2.0
VIII.Extraordinary Items	0.20	(7.55)	0.40	(2.0
IX. Net Profit/(Loss) before Tax tax (VII-VIII)	0.25	(7.39)	0.49	(2.0
X. Tax Expense:	0.20	(1.00)	0.10	(2.0
1. Current Tax	0.05	(1.39)	0.09	(2.0
2. Deferred Tax	0.00	(1.00)	0.00	(2.0
XI. Net Profit/(Loss) for the period from continuing	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	· ·		
operation (VII-VIII)	0	0	0	
XII.Net Profit/(Loss) for the period from discontinuing	1	•	'	
operation	0.2	(6.00)	0.40	(2.0
XIII.Tax expense from discontinuing operations	0.2	(0.00)	00	(=.0
XIV.Net Profit/(Loss) for the discontinuing operations	1	•	'	
after Tax (XII-XIII)	0	0	0	
XV. Net Profit (Loss) for the period (XI + XIV)	0.2	(6.00)	0.40	(2.0
XVI.Earnings Per Equity Share	"-	(0.00)	"	(=:-
(a) Basic	0.64	-1.91	1.27	0.
(b) Diluted	3.3			
Paid up equity share capital (Face Value of the				
Share shall be indicated)	31.425	31.425	31.425	31.4
Reserve excluding Revaluation Reserves as per			" "	

Information for the first quarter ended 30/06/2019 कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने PARTICULARS OF SHAREHOLDING की संभावना है तो वह निवेशक शिकायत फॉर्म Public shareholding Number of Shares फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) 39.93% 39.93% Promoters & Promoter group shareholding में शिकायत दर्ज कर सकता है या शपथ पत्र द्वारा a)Pledged / Encumbered समर्थित उसके हित की प्रकृति एवं विरोध का Number of Shares Percentage of shares (as a % of the total आधार बताते हुए, इस सूचना के प्रकाशन की shareholding of promoter & promoter group) Percentage of shares (as a % of the total तिथि से चौदह दिनों के अन्दर क्षेत्रीय निदेशक, share capital of the company) उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, दूसरा पलोर, पर्यावरण)Non-encumbered Number of Shares 188750 188750 188750 188750 भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली 110003 Percentage of shares (as a % of the total 100% shareholding of promoter & promoter group) Percentage of shares (as a % of the total 100% 100% 100% को पंजीकृत डाक द्वारा सूचित करें, और एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी के निम्नलिखित share capital of the company) 60.07% 60.07% 60.07%

146.98

146.98

Particulars Three months ended 30/06/2019 B INVESTOR COMPLAINTS Pending at the beginning of the quarter Received during the quarter NIL NIL Disposed of during the quarter Remaining unresolved at the end of the quarter

. The above results were taken on record at a meeting of the Board of Directors held on dated 12th. August, 2019. No investor complaints were received by the Company during the quarter ended 30th. June, 2019. The Company has only one revenue segment. Hence, no separate segment wise information of revenue, results and capital employed is given. For and on behalf of the Board MARKTESH TRADING LIMITED

(ABHISHEK BAJORIA)

: NEW DELHI

कानपुर 208005 यूपी

पताः सी-33, सर्वोदय नगर हंस नगर,

SHALIMAR PAINTS LIMITED CIN No: L24222HR1902PLC065611

Regd. Office: Stainless Centre, 4th Floor, Plot No. 50, Sector 32 Gurugram -122001, Haryana Website: www.shalimarpaints.com, Email: askus@shalimarpaints.com, Ph No.: +91 124 4616600

REGULATION 47 (1)(b) OF SEBI (LODR) REGULATIONS, 2015 EXTRACTS OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2019 (₹ in Crore except for Shares and EPS)

balance sheet of previous accounting year

A.	Consolidated Financial R		he Quarter Er	dod	Year Ended
SI.	Particulars	30.06.2019	31.03.2019	30.06.2018	31.03.2019
No.	r articulars	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total Income from Operations	85.06	89.51	51.45	287.62
2	EBITDA#	0.26	(34.08)	(12.02)	(59.68)
3	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or	(6.16)	(42.79)	(20.30)	(93.50)
4 5	Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or	(6.16)	(54.34)	(20.30)	(109.18)
6	Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profits /	(5.35)	(43.36)	(14.76)	(81.78)
7 8 9	(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax) Paid up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 2/- each) Other Equity	(5.35) 10.86	(43.84) 10.73	(14.79) 4.50	(82.35) 10.73 294.54
9	Earnings Per Share (Face Value of Rs. 2/- each) (for continuing and discontinued operations)- Basic Diluted*	(0.99) (0.99)	(8.08) (8.08)	(6.89) (6.89)	(15.24) (15.24)

SI. No.	Particulars	Fort	For the Quarter Ended				
		30.06.2019	31.03.2019	30.06.2018 (Unudited)	31.03.2019 (Audited)		
		(Unudited)	(Audited)				
1 2 3 4	Total Income from Operations	85.06	89.51	51.45	287.62		
2	EBITDA#	0.33	(34.00)	(11.95)	(59.40)		
3	Net Profit for the period before tax	(6.08)	(54.25)	(20.23)	(108.89)		
4	Net Profit for the period after tax	(5.30)	(43.30)	(14.72)	(81.57)		

*Anti-dilutive

#EBITDA= Earning before Interest, Tax and Depreciation & Amortization

 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results for the quarter ended June 30, 2019, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results for the guarter ended June 30, 2019, is available on the website of Stock Exchanges at (www.bseindia.com/www.nseindia.com) as well as on the Company's Website at (www.shalimarpaints.com).

 On 4th Jan 2019, The parent company has allotted 3,11,43,042 equity shares of face value Rs. 2/- each at the price of Rs. 64.50/- per share (including premium of Rs. 62.50/- per shares) aggregating to Rs. 200.87 Crore to the eligible equity shareholders on right basis in the ratio of 3 equity shares for every 2 equity shares held.

Proceeds from the right issue have been utilised in the following manner.

Particulars	Proposed to be utilised during financial year 2018-19	Utilised during the financial year 2018-19	Utilised during quarter 1 of financial year 2019-20	To be utilised during financial year 2019-20
Project of reinstatement of paint manufacturing plant at Nashik	45.68	20.35	14.22	11.11
Setting up of Regional Distribution Centre (RDC) at Nashik	3.40			3.40
Long Term Working Capital Requirements	117.38	87.09	32.27	-1.98
General Corporate purposes	34.15	11.37	13.66	9.13
Expenses for Rights Issue	0.26	0.26	1.91	100
Total	200.87	119.07	60.15	21.65

- On 8th April 2019, The parent company has allotted 6,58,872 equity shares of face value Rs. 2/- each at the price of Rs. 86.56/- per share (including premium of Rs. 84.56/- per shares) aggregating to Rs. 5.70 Crore to the Hind Strategic Investments by converting its ECB loan of US\$ 0.08 Cr pursuant to members approval through Postal ballet dated 16.03.2019.
- I. These Consolidated Unaudited Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and were approved by the Board of Directors in their meeting held on August 12, 2019. Limited Review of these results are in accordance with Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 has been carried out by the Statutory Auditors. For and on behalf of the Board

Ashok Kumar Gupta Director DIN: 01722395 AAYUSH FOOD AND HERBS LIMITED

CIN: - L01122DL1984PLC018307

Regd. Off.- W-321, Ground Floor, Chirag Delhi, New Delhi- 110017; Ph.- 011-41009092 Website: www.aayushfoods.com; E-mail: aayushfoodherbs@gmail.com

Statement of Standalone Un-audited Financial Results for the guarter ended June 30, 2019 (Rs. In Lakhs, unless otherwise stated)

SI. No.	Particulars	Quarter ended 30.06.2019	Preceding 3 months ended 31.03.2019	ended in the previous year	Year ended 31.03.2019
		Un-udited	Audited	Un-audited	Audited
1	Total Income from Operations (net)	3,651.39	4,817.43	2,794.46	13,306.77
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	19.33	6.23	27.28	82.17
3	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	19.33	6.23	27.28	82.17
4	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	14.30	-8.81	27.28	60.34
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)] [Refer Note 3 below]	822			X122
6	Equity Share Capital	324.50	324.50	324.50	324.50
7	Reserves (Excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year)	844		(44)	251.59
8	Earnings/(Loss) Per Share(not annualised, in Rs.) for continuing and discontinued operations - Basic - Diluted	0.44 0.44	-0.27 -0.27	0.84 0.84	1.86 1.86

Notes: The above is an extract of the detailed format of Financial Results fro the guarter ended June 30, 2019 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the guarter ended June 30, 2019 are available on the website of the BSE Limited (www.bseindia.com) and Metropolitan Stock Exchange of India Limited (www.msei.in) where the company's shares are listed and shall also be available on the website of the Company (www.aayushfoods.com).

The above Un-audited Standalone financial results of the Company for the guarter ended June 30, 2019 have been reviewed by Audit Committee of the Board and thereafter approved by the Board of Directors at its meeting held on August 12, 2019.

The above Unaudited Financial Results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting standards) Rules, 2015 (IND AS) Prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder and other Recognised Accounting practices and policies to the extent applicable.

> By order of the Board For Aayush Food and Herbs Ltd. Sd/-

Pallavi Mittal Place: New Delhi Managing Director Date: 12th August, 2019 DIN 07704583

हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड CIN:U74899DL1991PLC046774 पंजी. कार्यालय: 34, कम्युनिटी सेन्टर, बसंत लोक, बसंत विहार, नई दिल्ली-110057 टेली: 011-49487150, फैक्स: 011-49487150, ई-मेल: litigation@herofincorp.com, HeroFin Corp. वेबसाईट: www.herofincorp.com पर्वाग्रह-रहित ई-नीलामी बिक्री सचना

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम, 2002) के अनुसार हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड (एचएफसीएल) के पास गिरवी रखी गई अचल सम्पत्ति की ई-नीलामी बिक्री

विद्वान सीएमएम, पटियाला हाउस कोर्ट्स नई के आदेश तिथि 19.12.2016 तथा एफएओ 76/2017 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वार पारित आदेश तिथि 24.5.2019 तथा 22.7.2019 के अनुपालन में एचएफसीएल के प्राधिकृत अधिकारी ने यहां नीचे वर्णित सभी शुल्कों के साथ एचएफसीएल के बकाये की वसली के लिये ''जैसा है जहां है आधार'' एवं ''जो भी वहां है आधार'' एवं ''जैसा है जो है आधार'' एवं ''उपचार रहित आधार'' पर पूरी तरह से उसकी बिक्री करने के अधिकार के साथ निम्नलिखित ऋण खाता में सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। जैसा कि बकाये के भुगतान में विफलता के बाद प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली 2002 के साथ पठित सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी नीचे वर्णित सम्पत्ति की बिक्री द्वारा एचएफसीएल के बकाये की वसुली करने का प्रस्ताव करते हैं। जैसा कि प्रतिभृत परिसम्पत्ति की बिक्री ऋणधारक से एचएफसीएल के बकाये प्रतिभूत ऋण की वृसली के लिये सार्वजनिक नीलामी द्वारा की जायेगी।

आम जनता को व्यक्तिगत अथवा विधिवत अधिकृत एजेन्टों के माध्यम से बोली करने के लिये आमंत्रित किया जाता है।

ऋणधारक का नाम एवं पताः 1. श्री अजय मैनी, प्रबंध पार्टनर, मै. मैनी स्कैफोल्ड सिस्टम्स

पंजी. कार्यालयः बी1/ए 21, भूतल, मोहन कोऑपरेटिव इस्टेट, नई दिल्ली-110044, साथ ही: सी-3, 3रा तल, डिफेन्स कॉलोनी, नई दिल्ली 2. मै. मैनी स्कैफोल्ड सिस्टम्स (सह-ऋणधारक)

पंजी. कार्यालयः बी1/ए 21, भूतल, मोहन कोऑपरेटिव इस्टेट, नई दिल्ली-110044,

3. मैनी कन्स्ट्रक्शन इक्विपमेन्ट पी.लि. (सह–ऋणधारक) पंजी. कार्यालयः बी1/ए 21, भूतल, मोहन कोऑपरेटिव इस्टेट, नई दिल्ली-110044,

4. श्री राजेश मैनी (गारन्टर) पार्टर्नर, मै. मैनी स्कैफोल्ड सिस्टम्स जिसका पंजीकृत कार्यालयः बी1/ए 21, भूतल, मोहन कोऑपरेटिव इस्टेट, नई दिल्ली-110044, साथ हीः सी-3, 3रा तल, डिफेन्स कॉलोनी, नई दिल्ली ऋण दस्तावेजों: स्वीकृत पत्र तिथि 10.6.2015, रेफरैन्स एचएफसीएल/ एलएपी/ 06-01/2015 तथा ऋण अनुबंध तिथि 10.7.2015

मांग सूचना की तिथि: 20.09.2016 वास्तविक कब्जा की तिथि: 23.7.2019

मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि: 09.09.2016 को देय रु. 10,11,79,116/- (रुपए दस करोड़ ग्यारह लाख उन्यासी हजार एक सौ सोलह

उपरोक्त ऋण खाता के संदर्भ में गिरवी अचल सम्पत्ति का विवरण: 3/26, 2रा तल, शान्ति निकेतन, नई दिल्ली

आरक्षित मुल्यः रु. 10,00,00,000/- (रुपए दस करोड़ मात्र) ई-नीलामी की तिथि एवं समय: 20.9.2019 को 10 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप. तक।

ऑन लाइन निविदा⁄ई-नीलामी के नियम एवं शर्तैं:

1. ई-नीलामी बिक्री प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ 20.9.2019 को 10 बजे पूर्वा. से 1 बजे अप. (आईएसटी) तक वेबसाईट

- ''https://www.bankauctions.in'' के माध्यम से ''ऑन लाइन ई-नीलामी/बिक्री'' होगी।
- 2. इच्छुक बोलीदाता के पास वैध ई-मेल पता होना चाहिये। 3. इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने तथा ई-नीलामी बिक्री प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व ई-नीलामी बिक्री
- के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये वेबसाईटः https://www.bankauctions.in देखें 4. संभावित बोलीदाताओं को https://www.bankauctions.in पर अपना नाम पंजीकृत कराना होगा तथा यूजर आईडी एवं पास्वर्ड प्राप्त
- 5. संभावित बोलीदाता हेल्पालाइन नं.: 040–23836405, +91–8142000809/8142000066/67 पर सम्पर्क कर अथवा info@ bankauctions.com/vikas@bankauctions.in पर ई-मेल भेजकर हमारे सेवा प्रदाता मै. 4 क्लोजर से ई-नीलामी पर ऑन लाइन प्रशिक्षण
- 6. संबंधित विवरणों के साथ बोलियां निर्धारित प्रारूप में केवल ऑन लाइन जमा की जायेगी।
- 7. ऑन लाइन बोली जमा करने की अंतिम तिथि 19.9.2019 के 6.00 बजे अप. तक है। 8. न्यूनतम बोली वृद्धि मूल्य रु. 1,00,000/- (रुपए एक लाख मात्र) है।
- 9. ई-नीलामी में भाग लेने के लिये इच्छुक बोलीदाताओं को नीचे वर्णित खाता में आरटीजीएस/एनईएफटी निधि अंतरण द्वारा ईएमडी जमा करना होगाः
- एचडीएफसी बैंक लि बैंक का नाम खाता धारक का नाम हीरो फिनकॉर्प लि. 209–214, कैलाश बिल्डिंग 26, केजी मार्ग, नई दिल्ली बैंक का पता 00030310016156 HDFC0000003 आईएफएससी कोड
- 10. सफल बोलीदाता के मामले में ईएमडी समायोजित की जायेगी। असफल बोलीदाता को ईएमडी एचएफसीएल द्वारा वापस लौटा दी जायेगी ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दी जायेगी।
- 11. एचएफसीएल को उसका कोई भी कारण बताये बिना किसी या सभी बोलियों/प्रस्तावों को स्वीकार या निरस्त करने अथवा ई–नीलामी बिक्री को स्थगित/निलंबति/रद्द करने का अधिकार प्राप्त है।
- 12. उपरोक्त सम्पत्ति को वर्णित आरक्षित मुल्य से कम में नहीं बेचा जायेगा। 13. यदि एचएफसीएल द्वारा बोली/प्रस्ताव स्वीकार की जाती है, बोली में उच्चतम मूल्य का प्रस्ताव करने वाले सफल बोलीदाता को एचएफसीएल के पास ई नीलामी बिक्री की पूर्णता पर तत्काल बिक्री मूल्य के 25% बोली राशि (ईएमडी सहित) का भुगतान करना होगा जिसमें विफल होने पर ईएमडी जब्त कर ली जायेगी तथा तत्काल सम्पत्ति की बिक्री कर दी जायेगी।
- 14. सफल बोलीदाता को बिक्री की पृष्टि के 15वें दिन या उससे पूर्व हीरो फिन कॉर्प लिमिटेड के पक्ष में देय, नई दिल्ली में भुगतान होने योग्य चेक/ पे आर्डर/ डिमांड ड्राफ्ट द्वारा 75% बोली राशि का भुगतान करना होगा।
- 15. निर्धारित अवधि अर्थात् बिक्री की पृष्टि के 15 दिनों के भीतर शेष 75% बोली राशि का भूगतान नहीं करने पर जमा राशि (25% बोली राशि सहित) जब्त कर ली जायेगी तथा सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी तथा क्रेता उस सम्पत्ति अथवा राशि के किसी भाग जिसके लिये बाद में उसकी बिक्री की जायेगी, के प्रति अपने सभी दावे से वंचित हो जाएंगे।
- 16. एचएफसीएल द्वारा बिक्री की पृष्टि पर तथा यदि नियमों एवं शर्तों का पालन किया गया हो, बिक्री करने वाले प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के परिशिष्ट V में दी गई प्रपत्र में क्रेता के पक्ष में अचल सम्पत्ति का बिक्री प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा
- 17. सम्पत्ति की बिक्री ''जैसा है जहां है आधार'' एवं ''जो भी वहां है आधार'' एवं ''जैसा है जो भी है आधार'' एवं उपचार-रहित आधार पर की जायेगी। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि बिक्री की जाने वाली सम्पत्ति के संदर्भ में टाइटल, पहचान, विस्तार, व्यास, सर्वे नम्बर, डोर नम्बर, चौहद्दी अथवा अधिभारों के विषय में संतृष्ट होने के लिये राजस्व/एसआरओ के अभिलेखों की जांच कर लें। एचएफसीएल उपरोक्त सम्पत्ति पर लम्बित किसी भी प्रकार की देयताओं के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
- 18. इच्छुक पार्टी/बोलीदाता 18.9.2019 को या उससे पूर्व कार्यावधि के दौरान नीलामी पर रखी गई सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं जिसके लिये वे अधोहस्ताक्षरी से सम्पर्क कर सकते हैं।
- 19. सफल बोलीदाता को एकाकी रूप से लागू होने वाले कॉन्वीयन्स, पंजीकरण शुल्कों, स्टाम्प शुल्क, करों, सांविधिक देयताओं के लिये देय
- 20. यह ई-नीलामी बिक्री एचएफसीएल द्वारा पष्टि के अधीन होगी।

सभी चार्जेज का वहन करना होगा।

- 21. यह बिक्री/नीलामी सरफेसी अधिनियम, 2002 (उसके अंतर्गत निर्मित नियमों) में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन होगी। 22. नीलामी की गई सम्पत्ति के संदर्भ में किसी चार्ज, लिएन, अधिभारों, सम्पत्ति कर तथा सरकार या किसी व्यक्ति के किसी अन्य बकाये के
- लिये एचएफसीएल उत्तरदायी नहीं होगा। 23. यदि वे अपनी सम्पूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान नहीं करते हैं तो उपरोक्त तिथि को ई-नीलामी बिक्री के आयोजन के विषय में उपरोक्त
- ऋण के ऋणधारक के लिये यह प्रकाशन 30 दिनों की बिक्री सचना है। ऋणधारक ई-नीलामी की तिथि को या उससे पूर्व उपरोक्त राशि क भूगतान करने के लिये सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत 30 दिनों की बिक्री सूचना दी जाती है जिसमें विफल होने पर अचल सम्पत्ति की बिक्री कर दी जायेगी तथा शेष, यदि कोई हो, ब्याज तथा लागतों के साथ वसूल की जायेगी। यदि ई-नीलामी बिक्री की तिथि से पूर्वी ऋणधारक एचएफसीएल की संपूर्ण बकाया देयताओं का भूगतान कर देते हैं तो ई-नीलामी बिक्री रोक दी जायेगी। 24. एतदहारा ऋणधारक को सचित किया जाता है कि बिक्री के नियमों एवं शर्तों के अनसार यहां ऊपर निर्दिष्ट गिरवी सम्पत्ति की खरीद के लिये
- वे इच्छुक क्रेताओं/खरीदारों को सामने ला सकते हैं।
- 25. अचल सम्पत्ति की बिक्री उच्चतम बोलीदाता को की जायेगी। लेकिन, प्राधिकृत अधिकारी को यदि वे आवश्यक समझें, इंटर-से बोली की अनुमति देने का सम्प्रभु अधिकार है।

26. ऊपर वर्णित ऋण की राशि. ऋण फोर्क्लोजर राशि नहीं है। उक्त ऋण के लिये लम्बित ईएमआई सहित अन्य सभी चार्जो की ऋण समापन के समय में गणना की जायेगी। श्री विक्की ग्रोवर मो.: 9205581723

CIN: L27204DL1991PLC046120 पंजीकृत कार्यालय: 1/24, बंसी हाउस, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002 फोन. नं. 011-23234316, ई-मेल: mewatzinc@gmail.com, वेबसाईट: www.mewatzinc.com

म सं.	. विवरण		समाप्त वर्ष		
		30.6.2019 (अनंकेक्षित)	31.3.2019 (अंकेक्षित)	30.6.2018 (अनंकेक्षित)	31.3.2019 (अंकेक्षित)
200	परिचालनों से कुल आय	33.40	40.05	92.17	201.20
2.	अविध के लिए सुद्ध लाम/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं/ अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	0.27	2.42	1.97	5.10
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए सुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथव असाधारण मदों के बाद)	0.27	2.42	1.97	5.10
L	कर के बाद अवधि के लिए सुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं अथव असाधारण मदों के बाद)	0.20	1.82	1.48	3.76
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ, (हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) से शामिल)	0.20	1.82	1.48	3.76
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	400.00	400.00	400.00	400.00
7.	आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाई गई पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित)				-41.98
8.	आय प्रति रोयर (सम मूल्य रु. 10/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए) (वार्षिकीकृत नहीं)				-
	मूलः	0.01	0.05	0.04	0.09
	तरलः	0.01	0.05	0.04	0.09

एक्सचैंज में दाखिल की गई समाप्त तिमाही के परिणामों का संपुर्ण प्रारुप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का सम्पुण प्रारूप स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट (www.bseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाई (www.mewatzink.com) पर उपलब्ध है। 2) उपरोक्त परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 12 अगस्त, 2019 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनमोदित किए गए। 3) कम्पनी के सांविधिक लेखा परीक्षक ने सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन

33 के अनुपालन में 30 जुन, 2019 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों की सीमित समीक्षा की है। 4) जहां भी जरूरी हुआ, पूर्व वर्ष/ तिमाही के आंकड़े पुनर्वर्गीकृत/पुनर्समुंहीकृत किए गए हैं।

बोर्ड के आदेश मेवात जिंक लिमिटेड के लि हस्ता. जे.पी. गुप्त तिथि: 12.08.2019 (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक स्थानः नई दिल्ली DIN: 00253529

फार्म नं० आईएनसी-26 फार्म नं० आईएनसी-26' [कंपनी (निगमन) विनियमन, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में] कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का एक राज्य से दूसरे

समक्ष केंद्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र)

किए जाने वाले विज्ञापन

राज्य में स्थानांतरण को लेकर समाचार-पत्र में प्रकाशित

तथा कंपनी (निगमन) विनियमन, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) की धारा (अ) के मामले में – तथा कुलटेक्स होल्डिंग्स लिमिटेड, (CIN

U67120DL1983PLC016454) जिसका

पंजीकृत कार्यालय : 13, लोकल शॉपिंग सेंटर, मस्जिद मोठ, जीके-।।, नई दिल्ली 110048 में स्थित है, वे आवेदक सर्वसाधारण को एतदुद्वारा सुचना दी जाती है कि ०१ जुलाई, 2019 को आयोजित वार्षिक आमसभा/ **विशेष आमसभा** में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन के पृष्टीकरण हेत् कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कंपनी केंद्र सरकार को एक आवेदन दाखिल करेगी

ताकि कंपनी को अपने पंजीकृत कार्यालय का स्थानांतरण **''राष्टीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी**) **दिल्ली''** से **''छत्तीसगढ राज्य''** में करने का अधिकार प्राप्त हो जाए। यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से प्रभावित हो, तो वह हलफनामे में विरोध के आधार व प्रभावित होने वाले अपने/ अपनी हित की प्रकृति का जिक्र कर अपने/ अपनी आपत्ति इस सूचना की प्रकाशन तिथि से चौदह दिनों के भीतर निवेशक शिकायत फार्म भरकर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर प्रेषित करें अथवा क्षेत्रीय निदेशक. उत्तरी क्षेत्र को बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉमप्लेक्स, नई दिल्ली- 110003 के पते पर दाखिल करें अथवा पंजीकृत डाक से उनके पास पहंच जाए तथा उसकी एक प्रति आवेदक कंपनी को भी उसके

दिल्ली 110048 वास्ते तथा आवेदक की ओर से कुलटेक्स होल्डिंग्स लिमिटेड

अधोलिखित पते पर पंजीकृत कार्यालय में भिजवाएं :

13, लोकल शॉपिंग सेंटर, मस्जिद मोठ, जीके-।।, नई

हस्ता/- गीतिका जैन निदेशक दिनांक : 12.08.2019 स्थान : नई दिल्ली DIN: 00207695 िकंपनी (निगमन) विनियमन, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में] कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण को लेकर समाचार-पत्र में प्रकाशित किए जाने वाले विज्ञापन

समक्ष केंद्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र) तथा कंपनी (निगमन) विनियमन, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) की धारा (अ) के मामले में

सर्ज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड. (CIN

U74899DL1984PTC019494) जिसक पंजीकृत कार्यालय : 13, मस्जिद मोठ, डीडीए कॉमर्शियल कॉमप्लेक्स, नई दिल्ली 110048 में स्थित सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सचना दी जाती है कि os जुलाई, 2019 को आयोजित वार्षिक आमसभा/ विशेष आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन के पष्टीकरण हेत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कंपनी केंद्र सरकार को एक आवेदन दाखिल करेगी

ताकि कंपनी को अपने पंजीकृत कार्यालय क स्थानांतरण ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली'' से "छत्तीसगढ़ राज्य" में करने का अधिकार यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से प्रभावित हो, तो वह हलफनामे में विरोध के आधार व प्रभावित होने वाले अपने/ अपनी हित की प्रकृति का जिक्र कर अपने/ अपनी आपत्ति इस सुचना की प्रकाशन तिथि से चौदह दिनों के भीतर निवेशक शिकायत फार्म भरक एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर प्रेषित करें अथवा क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र को बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉमप्लेक्स, नई दिल्ली- 110003 के पते पर दाखिल करें अथवा पंजीकृत डाक से उनके पास पहुंच जाए तथा उसकी एक प्रति आवेदक कंपनी को भी उसके

अधोलिखित पते पर पंजीकृत कार्यालय में भिजवाएं : 13, मस्जिद मोठ, डीडीए कॉमर्शियल कॉमप्लेक्स, नई दिल्ली 110048 वास्ते तथा आवेदक की ओर से सर्ज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड हस्ता/- गीतिका जैन दिनांक : 12.08.2019 निदेशक

DIN: 00207695

फार्म नं. एनसीएलटी. 3ए समक्ष राष्ट्रीय कम्पनी लॉ ट्रिब्युनल बेंच-॥, नई दिल्ली CP (CAA) No. 108/ND/2019 कम्पनी अधिनियम, 2013 के मामले में

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 तक साथ में पढें कम्पनीज् (समझौता, व्यवस्था, समामेलन) रूल 2016 के मामले में एवं मामले में

के मध्य समामेलन की योजना

अल्फीयस रियल एस्टेट प्रा. लि. (टांस्फरर कंपनी नं. 1) सरिटोर प्रॉपर्टीज प्रा. लि. (टांस्फरर कंपनी नं. 2) क्लेटा बिल्डकॉम प्रा. लि. (ट्रांस्फर्र कंपनी नं. 3) क्लेटा डैवलेपर्स प्रा. लि. (ट्रांस्फर्र कंपनी नं. 4)

स्थान : नई दिल्ली

नोमोस प्रॉपर्टीज प्रा. लि. (ट्रांस्फर्र कंपनी नं. 5) क्लेटा बिल्डर्स प्रा. लि. (ट्रांस्फर्र कंपनी नं. 6) हेसपीरा लैंड डैवलेपर्स प्रा. लि. (ट्रांस्फरी कंपनी) एवं उनके संबंधित शेयरधारक एवं मामले में

अल्फीयस रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत बनी एक कम्पनी जिसका CIN: U70100DL2011PTC217236, पंजीकृत कार्यालय ए-19, ए-ब्लाक हाऊस नं. ए-1 से ए-32, वैस्टएण्ड, नई दिल्ली-110021 में है। (PAN: AAJCA3537C) ... आवेदक कंपनी 1/ ट्रांस्फर्र कंपनी 1)

2. सरिटोर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत बनी एक कम्पनी जिसका CIN: U70109DL2011PTC217344, पंजीकृत कार्यालय ए-19, ए-ब्लाक हाऊस नं. ए-1 से ए-32, वैस्टएण्ड, नई दिल्ली-110021 में है। (PAN: AAPCS6023F) ... आवेदक कंपनी 2/ ट्रांस्फर्र कंपनी 2)

3. क्लेटा बिल्डकॉम प्राइवेट लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत बनी एक कम्पनी जिसका CIN: U70109DL2011PTC218701, पंजीकृत कार्यालय हाऊस नं. 3 स्ट्रीट नं. 4ए ओल्ड अनारकली, कृष्णा नगर, दिल्ली-110051 में स्थित है। (PAN: AAECC3877G) ... आवेदक कंपनी 3/ ट्रांस्फर्र कंपनी 3)

4. क्लेटा डैवलेपर्स प्राइवेट लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत बनी एक कम्पनी जिसका CIN: U70101DL2011PTC218708, पंजीकृत कार्यालय ए-19, ए-ब्लाक हाऊस नं. ए-1 से ए-32, वैस्टएण्ड, नई दिल्ली-110021 में है। (PAN: AAECC3875E) ... आवेदक कंपनी ४/ टांस्फरर कंपनी ४)

5. नोमोस प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत बनी एक कम्पनी जिसका CIN: U70109DL2011PTC217156, पंजीकृत कार्यालय ए-19, ए-ब्लाक हाऊस नं. ए-1 से ए-32, वैस्टएण्ड, नई दिल्ली-110021 में है। (PAN: AADCN5811C) ... आवेदक कंपनी 5/ ट्रांस्फरर कंपनी 5)

5. क्लेटा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत बनी एक कम्पनी जिसका CIN: U70200DL2011PTC218648, पंजीकृत कार्यालय ए-19, ए-ब्लाक हाऊस नं. ए-1 से ए-32, वैस्टएण्ड, नई दिल्ली-110021 में है। ... आवेदक कंपनी 6/ ट्रांस्फर्र कंपनी 6)

(PAN: AAECC3873C) ⁷. हेसपीरा लैंड डैवलेपर्स प्राइवेट लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत बनी एक कम्पनी जिसका CIN: U70109DL2009PTC196611, पंजीकृत कार्यालय ए-19, ए-ब्लाक, हाऊस नं. ए-1 से ए-32, वैस्टएण्ड, नई दिल्ली-110021 में है।

(PAN: AACCH2971A) ... आवेदक कंपनी 7/ ट्रांस्फरी कंपनी) याचिका की सचना

एक संयुक्त याचिका कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230–232 के अंर्तगत समामेलन की योजना के अनमोदन प्राप्त करने हेत मध्य अल्फीयस रियल एस्टेट प्रा. लि. (ट्रांस्फर्र कंपनी नं. 1) सरिटोर प्रॉपर्टीज प्रा. लि. (ट्रांस्फर्र कंपनी नं. 2) क्लेटा बिल्डकॉम प्रा. लि. (ट्रांस्फर्र कंपनी नं. 3) क्लेट डैवलेपर्स प्रा. लि. (टांस्फरर कंपनी नं. 4) नोमोस प्रॉपर्टीज प्रा. लि. (टांस्फरर कंपनी नं. 5) क्लेटा बिल्डर्स प्रा. लि. (ट्रांस्फर्र कंपनी नं. 6) का हेसपीरा लैंड डैवलेपर्स प्रा. लि. (ट्रांस्फरी कंपनी) के साथ समामेलन की योजना की स्वीकृति हेत आवेदक कम्पनीयों द्वारा दिनांक 23.07.2019 को प्रस्तृत की गई एवं उक्त याचिका की सुनवाई दिनांक 06.09.2019 को राष्ट्रीय कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल, बैंच-॥ नई दिल्ली के समक्ष नियत की गई है। कोई व्यक्ति उक्त याचिका का समर्थन या विरोध करने क इच्छुक हो तो अपने इस आशय की सूचना अपने हस्ताक्षर से या अपने अधिवक्ता के हस्ताक्षर से नाम और पते सहित याचिकाकर्त्ता के अधिवक्ता के नाम व पते पर भेजे ताकि वह याचिकाकर्त्ता के अधिवक्ता के पास याचिका की सुनवाई के लिये नियत तिथि से कम से कम 2 दिन पूर्व पहुँच जाये। यदि वह याचिका का विरोध करना चाहता है तो ऐसी सुचना के साथ विरोध करने के आधार य शपथपत्र दिया जाना चाहिये। अधोहस्ताक्षरी द्वारा याचिकाँ की एक प्रति उसकी अपेक्षा करने वाले व्यक्ति को उसके लिये निहित प्रभार का संदाय करने पर दी जायेगी। दिनांक: 12.08.2019

धितिमान भट्टाचार्या/ दीति ओझा आवेदक कम्पनीयों के अधिवक्ता पता : **यूनिटी लीगल,** एस - 369, ग्रेटर कैलाश पार्ट - 2, नई दिल्ली-110048

epaper.jansatta.com

Place: Gurugram

Date: August 12, 2019

स्थानः नई दिल्ली

तिथि: 13.8.2019

हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड

प्राधिकत अधिकारी

Ph.: 011-41435356 (Board), Email: newdelhi@unitylegal.com